



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 567 राँची, गुरुवार,

18 जुलाई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

18 अप्रैल, 2019

संख्या- 15/नीति नि०-07-17/2014 का०- 3145-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-262 दिनांक-13.01.2015 में अंकित प्रावधान के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में अवर सचिव (अनुमण्डल पदाधिकारी) से उप सचिव (अपर समाहर्ता), उप सचिव से संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव से अपर सचिव एवं अपर सचिव से विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नति पर विचार करने हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में श्री राजीव अरुण एक्का, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को मनोनीत किया जाता है।

2. विषयाधीन प्रोन्नति समिति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य के मनोनयन संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या- 9025 दिनांक- 20.10.2016 को एतद्वारा विलोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० जी० रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव।
